



Best Agrolife Limited

CIN : L74110DL1992PLC116773

4th September, 2023

To

Corporate Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai-400001

Scrip Code: 539660

Scrip ID: BESTAGRO

Sub: Intimation on publication of newspaper advertisement pursuant to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose copies of the newspaper advertisement published in the following newspaper:

1. Financial Express
2. Jansatta

regarding Notice of the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company for the Financial Year 2022-23, to be held on Wednesday, 27th September, 2023 through VC / OAVM.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Best Agrolife Limited


Astha Wahi
CS & Compliance Officer



SBC EXPORTS LIMITED

CIN: L18100UP2011PLC043209
 Regd. Off.: HOUSE NO.-20, LOHIYA TALAB, CHOTI BASAHI
 P.O.: VINDHYACHAL MIRZAPUR UP 231307 IN
 Tel: 0120-2895246, Email: info@sbcexportslimited.com, Website: www.sbcexportslimited.com

NOTICE OF 12TH ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

The Notice is hereby given that:-

- The 12th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Tuesday the 26th day of September, 2023 at 10:00 a.m. at the registered office of the company at House No.-20, Lohiya talab, Choti basahi P.O.: Vindhyaachal, Mirzapur - 231307, Uttar Pradesh to transact the business that will be set forth in the Notice of the Meeting.
- Electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for financial year 2022-23 have been sent to all the shareholders on or before September 2, 2023, whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s).
- Manner of registering/updating email addresses: Shareholders holding share(s) in dematerialized form, are requested to register their email address and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants.
- The notice of the 12th AGM and Annual Report for financial year 2022-23 will also be made available on the Company's website at www.sbcexportslimited.com websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.
- A Member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll, instead of him/herself and the proxy need not be a member. A person can act as proxy on behalf of members' up to and not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the company. Further, a member holding more than ten percent of the total share capital of the company carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other person or member. The instrument appointing proxy must be deposited at the registered office of the company not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
- Corporate members are requested to send a duly certified copy of the board resolution, pursuant to Section 113 of the Companies Act, 2013, authorising their representative to attend and vote on their behalf at the Meeting.
- During the period beginning 24 hours before the time fixed for the commencement of the meeting and ending with the conclusion of the meeting, members would be entitled to inspect the proxies lodged, at any time during the business hours of the Company, provided not less than 3 days written notice is given to the Company.
- Members/Proxies/Authorised Representatives should bring the duly filled Attendance Slips enclosed to attend the meeting.
- The Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 20th September, 2023 to Tuesday, 26th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting (AGM)
- Annual Report for the financial year 2022-23 including notice of 12th AGM along with Attendance Slips and Proxy Forms have been sent on Email IDs of those members whose E-mail IDs are registered with the Depository Participant(s)/Company, unless a member has requested for a physical copy of the same. The Documents shall be sent through permitted mode to all members holding shares in physical mode.
- Documents referred to in the notice and the explanatory statement shall be kept open for inspection by the members at the registered office of the Company on all working days (Monday to Saturday) from 10.00 a.m. to 01.00 p.m. except holidays, upto the date of the meeting.

For and on behalf of the Board
 For SBC Exports Limited
 Sd/-
 Hariom Sharma
 Company Secretary

Date: 02.09.2023
 Place: Sahibabad

ALPHALOGIC TECHSYS LIMITED

CIN: L72501PN2018PLC180757
 Registered office: 405, Pride Icon, Near Columbia, Asia Hospital, Kharadi Bypass Road, NA, Pune- 411014 (MH).
 Email: alphalogic.cs@gmail.com, Web: www.alphalogicinc.com

Shareholders are hereby informed that the (05th) Fifth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Saturday, the 23rd day of September, 2023 at 04:00 P.M. (IST)** through Video Conferencing (VC)/other Audio-Visual means (OAVM) to transact the business as set forth in the notice of the AGM which will be sent to the shareholders for convening the AGM of the Company.

Pursuant to General circular dated April 08 2020, April 13 2020, May 05, 2020, September 20, 2020, December 31, 2020, January 31, 2020, December 08, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022 and December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Collectively referred as MCA circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 05, 2023 (SEBI Circulars) and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the 05th AGM of the Company is being conducted through VC/OAVM, which does not require physical presence of members at a common venue. Shareholders will be able to attend the AGM of the company through VC and their presence through the VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the above provisions and the circulars, the notice of the AGM and the Annual Report for the Financial year 2022-23 will be sent to all the shareholders of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s)/Registrar & Share Transfer Agent (RTA) only through electronic means. **The remote e-voting period commences on 18th September 2023 at 9:00 am and will end on 22nd September 2023 at 5:00 pm.** The cut-off date for e-voting will be 16th September 2023. The Notice and the Annual report will also be available on the company's website at www.alphalogicinc.com and on the stock Exchange website at www.bseindia.com.

Manner of registering/updating email addresses
 Those Shareholders who are holding shares in dematerialized mode and have not registered/updated their email addresses with their depository participant(s) are requested to register/update their email addresses with the relevant depository Participant(s).

Manner of casting vote through e-voting:
 The Company has availed the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to facilitate e-voting to all its shareholders to cast their votes on the business as set forth in the notice of the AGM and the facility of voting through e-voting would also be made available during the AGM. The login credentials for casting votes through remote e-voting and e-voting during AGM shall also be made available to the shareholders through email. The detailed procedure for casting votes through remote e-voting and e-voting during AGM shall be provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.alphalogicinc.com and on the website of NSDL at <https://evoting.nsdl.com>.

For Alphalogic Techsys Limited
 Sd/-
 Anshu Goel
 Managing Director & CFO

Place: Pune
 Date: 31.08.2023

FORM B PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF KUT ENERGY PRIVATE LIMITED

S.No.	Particulars	Details
1.	Name of Corporate Debtor	KUT ENERGY PRIVATE LIMITED (In Liquidation)
2.	Date of Incorporation of Corporate Debtor	25.05.2007
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated/ registered	Registrar of Companies- Himachal Pradesh
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U40101HP2007PTC030745
5.	Address of the Registered Office and Principal Office (if Any) of Corporate Debtor	Kaith House, Near H.S. Khaneri Petrol Pump, Tehsil Rampur Bushahr, Rampur Bushahr Shimla- 172001, HP 172001
6.	Date of Closure of Insolvency Resolution Process	28.08.2023
7.	Liquidation Commencement Date of Corporate Debtor	28.08.2023 [Liquidation Order Received on 01.09.2023]
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as liquidator	Harmanjit Singh (IBBI/PA-001/IP-P-02034/2020-2021/13080)
9.	Address and email of the of the liquidator, as registered with te board	Address: #332, Phase-1, Near Singla Clinic, Sahibzada Ajit Singh Nagar -160055, Punjab E-Mail ID: ipcacharmanghal@gmail.com
10.	Address and email to be used for correspondence with the liquidator	3rd Floor, Plot No. D-190, Industrial Area, Phase 8B, Sector-74, SAS Nagar Mohali 160071, Punjab Email: rp.kutenergy@gmail.com
11.	Last Date for Submission of Claims	27-09-2023

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh bench has ordered the commencement of Liquidation of the KUT Energy Private Limited on 28.08.2023.

The stakeholders of KUT Energy Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 27.09.2023 to the liquidator at the address mentioned against item No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with the proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties.

[In case a stakeholder does not submit its claims during the liquidation process, the claims submitted by a stakeholder during the corporate insolvency resolution process under the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, shall be deemed to be submitted under Section 38.]

Sd/-
 Harmanjit Singh
 Liquidator
 Registration No: IBBI/PA-001/IP-P-02034/2020-2021/13080
 #332, Phase-1, Near Singla Clinic,
 Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab-160055
 Date: 02.09.2023
 Place: Mohali
 Mobile: -9988445464

RAMA STEEL TUBES LTD.

CIN: L27201DL1974PLC007114
 Regd. Office: B-5, 3rd Floor, Main Road, Ghazipur, New Delhi (India) - 110096
 + (91)-(11)-43446600 investors@ramasteel.com www.ramasteel.com

NOTICE TO THE MEMBERS

In pursuant to Annual General Meeting, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 02/2022 dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021, May 05, 2022, December 28, 2022 respectively, permitted holding of Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations") read with Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") and the above MCA Circulars, it has been decided to convene the 49th AGM of the Company on Thursday, September 28, 2023 at 12:30 P.M. (IST) through VC / OAVM facility, without the physical presence of the Members at a common venue.

In compliance with the relevant SEBI and MCA Circulars, the Notice of the 49th AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year that ended on March 31, 2023, along with login details for joining the 49th AGM through VC / OAVM facility including e-voting will be sent only by e-mail to all those Members, whose e-mail addresses are already registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP"). Members can join and participate in the 49th AGM through VC / OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice. Members participating through VC / OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Notice of the 49th AGM and the Annual Report will also be made available on Company's website (www.ramasteel.com), Stock Exchanges' websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") (www.evoting.nsdl.com).

The Company is providing remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) facility to all its Members to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of the 49th AGM. Detailed instructions for remote e-voting are provided in the said Notice.

Members who have not registered their e-mail address with the Company or RTA, can register their e-mail address for receipt of Notice of 49th AGM, Annual Report and login details for joining the 49th AGM through VC / OAVM facility including e-voting by sending a request to M/s Bigshare Services Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent at bsdshel@bigshareonline.com or to the Company at investors@ramasteel.com, providing their name, folio number/DPID & Client ID, client name or copy of consolidated account statement (in the case of demat holding), copy of share certificate - front and back (in the case of physical holdings), self-attested scanned copy of the PAN card and self-attested scanned copy of Aadhar Card (in support for registering e-mail address).

Any person, who acquires shares and becomes Member of the Company after the date of electronic dispatch of Notice of 49th AGM and holding shares as on cut-off date, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of 49th AGM or sending a request at evoting@nsdl.com.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com, or call on toll free no. 1800-22-44-30 or send a request at evoting@nsdl.com.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular.

For RAMA STEEL TUBES LIMITED
 Sd/-
 (NARESH KUMAR BANSAI)
 CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place: New Delhi
 Date: 02/09/2023

RAJDARSHAN INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off.: 59, Moti Magri Scheme, Udaipur-(Raj.) 313 001 India
 CIN: L14100RJ1980PLC002145, Web: www.rajdardshandustrieslimited.com
 Email: info@rajdardshandustrieslimited.com, Tel: 0294-2427999

NOTICE OF 42nd ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) AND E-VOTING

The 42nd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Rajdarshan Industries Limited will be held on Friday, September 29, 2023 at 11:30 a.m. (IST), through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act), Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with the General Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020 & General Circular No. 10/2022 dated 28th December 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 & Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of AGM and the Financial Statements for the Financial Year 2022-23 along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto (collectively referred as 'Annual Report') will be sent only through electronic mode to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or Depository Participant (DP). The aforesaid document(s) will also be available on the website of the Company at <https://www.rajdardshandustrieslimited.com> and at the websites of the Stock Exchanges and Central Depository Services (India) Ltd.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its Members to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-Voting"). Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting and participation in AGM through VC/OAVM by the Members (including for Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with Company/DPS) has been provided in the Notice of the AGM.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, September 22, 2023 ("Cut-off date"). A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date shall only be entitled to join the AGM, avail the remote e-voting and e-voting facility during the AGM.

The remote e-voting period will commence at 9.00 a.m. on Tuesday, September 26, 2023 and will end at 5.00 p.m. on Thursday, September 28, 2023. In addition, the facility for voting through electronic voting system shall also be made available during the AGM. Members who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to the Company at info@rajdardshandustrieslimited.com along with the copy of the E-communication Registration Form available on the website of the Company. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Participants. In case of any queries / difficulties in registering the e-mail address, Members may write to info@rajdardshandustrieslimited.com.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and Rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 23, 2023 to Friday, September 29, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Any queries/grievances relating to remote e-voting may be addressed to the Company at E-mail: info@rajdardshandustrieslimited.com

By Order of the Board
 For Rajdarshan Industries Limited
 Sd/-
 Kalp Shri Yava (Company Secretary)

Place: Udaipur
 Date: 02 September, 2023

Indian Bank

Sr. No.	Description of the Property with Property ID No. (Status of Possession)	Name of the Borrower / Guarantor / Mortgagor with address	Amount of Secured Debt	Reserve Price (IN ₹)	Earnest Money Deposit (IN ₹)	Bid Incremental Amt. (IN ₹)	Branch Name & Authorised Officer's name and Contact No.
19	Warehousing Godown No. 1 adm. 2200 sq. ft. Carpet area, Godown No. 2 adm. 2200 sq. ft. Carpet area both on Gc. Floor, Godown No. 101 adm. 2200 sq. ft. Carpet area, Godown No. 102 adm. 2200 sq. ft. Carpet area and Godown No. 103 adm. 1996 sq. ft. Carpet area all three on 1st floor, total adm. 10796 sq. ft. in the building No. C-2 of the project known as "KAVYA COMMERCIAL CENTER" Constructed on a Land bearing Survey Nos. 29/5 Part, 29/5 Part, 29/8 Part, and 32/3 situated, lying and being at Village Arjunali, Taluka Bhiwandi, Dist. Thane, within the limits of Arjunali Grampanchayat, Taluka - Saja Arjunali, Sub-Registration District and Taluka Bhiwandi, Registration District and District Thane. PROP. ID NO.: ID183245708194 (SYMBOLIC POSSESSION)	1. M/s. Khetiya Mercantile Pvt. Ltd. PRIVATE LIMITED COMPANY 2. Mrs. Vaishali Bhashesh Shah (Director / Guarantor) 3. Mr. Bhavesh Himantlal Shah W/o. Mr. Himantlal Shah (Director / Guarantor) 4. Mrs. Himantlal Shah S/o. Mr. Himantlal Shah All Add. are: Flat No. 4, HEM Building, North South Road No. 5, Near Cooper Hospital, JVPV Scheme, Vile parle (West), Mumbai-400 056, Maharashtra.	₹ 4,97,57,757/- (Rs. Four Crore Ninety Seven Lakh Fifty Seven Thousand Seven Hundred Fifty Seven Only) as on 30.06.2023	₹ 1,65,00,000/-	₹ 16,50,000/-	₹ 50,000/-	Mr. Santosh Kumar Srivastava, Contact No. 7076297530
20	Exclusive joint by way of Equitable Mortgage of Gala / Unit No. 38-A, CTS No. 302, 2nd Floor, Raj Industrial Complex premises CHS. Ltd., Military Road, Marol, Andheri (East), Mumbai-400 059 in the name of Jyotibhushan T. Tiwari. Having Carpet Area of 690 Sq. Ft. and Built up Area 720 Sq. Ft. under SARFAESI Act. Boundaries - On or towards East: Mithi River; On or towards West: Y Wing; On or towards North: Unit No. A/39; On or towards South: Unit No. A/32. PROP. ID NO.: ID1830168522853 (SYMBOLIC POSSESSION)	1. M/s. Sonachi Industries Ltd. Add: Gala / Unit No. 38-A, 2nd Flr., Raj Ind. Complex Premises CHS. Ltd., Military Rd., Marol, Maroshi, Andheri (E), Mumbai-400 059, MH; Also at: Gala / Unit No. 38-A, 2nd Flr., Raj Ind. Complex Premises CHS. Ltd., Military Rd., Marol, Maroshi, Andheri (E), Mumbai-400 059, MH; Also at: 601, Lotus Corporate Park, Jay Court, Goregaon (E), Mumbai-400 063, MH. 2. Mr. Jyoti Bhushan Tiwari (Director / Guarantor / Mortgagor) 3. Mrs. Laxmi Jyotibhushan Tiwari (Director / Guarantor) 4. Mrs. Padmabhushan T. Tiwari (Director / Guarantor) 5. M/s. Sonachi Biotech P. Limited (Corporate Guarantor) Add: Gala / Unit No. 38-A, 2nd Floor, Raj Industrial Complex Premises CHS. Ltd., Military Road, Marol, Maroshi, Andheri (E), Mumbai-400 059, MH.	₹ 15,48,42,346.30 (Rs. Fifteen Crores Forty Eight Lakhs Forty Two Thousand Three Hundred Forty Six and Paise Thirty only) as on 28.02.2018	₹ 98,000/-	₹ 16,50,000/-	₹ 50,000/-	Mr. Santosh Kumar Srivastava, Contact No. 7076297530
21	Property No. 1: Gala No.201 B 2nd Floor, TEJAL INDUSTRIAL BUILDING NO.2 CD OPERATIVE PREMISES SOCIETY LIMITED, Plot no.3 village Saki, Andheri Kurla Road, Sakinaka, Andheri(East) Mumbai-400072. PROP. ID NO.: ID18323620411A (POSSESSION) Property No. 2: Gala No. 201 A, 2nd Floor, TEJAL INDUSTRIAL BUILDING NO. 2 CD OPERATIVE PREMISES SOCIETY LIMITED, Plot No. 3, Village Saki, Andheri Kurla Road, Sakinaka, Andheri (East), Mumbai-400 072 PROP. ID NO.: ID18323620411B (POSSESSION) Property No. 3: Gala No.202A, 2ND Floor, TEJAL INDUSTRIAL BUILDING NO. 2 CD OPERATIVE PREMISES SOCIETY LIMITED, Plot no.3 Village Saki Andheri Kurla Road, Sakinaka Andheri (East) Mumbai-400072 PROP. ID NO.: ID18323620411C (POSSESSION)	1. Mr. Mangesh Anant Joshi (Proprietor & Guarantor) 2. Mrs. Ashwini M Joshi (Guarantor) Both Add. are: B-2/14, Jai Chamundhi CHS Ltd., Ambadi Road Vishal Nagar Vashi (West) - Mumbai 407020. 2. Mr. Laxmikant A Joshi (Guarantor) 3. Mrs. Hemalata L Joshi (Guarantor) Both Add. are: B-2/207, Jai Chamundhi CHS Ltd., Ambadi Road Vishal Nagar Vashi (West) - Mumbai 407020.	₹ 4,07,95,540.88/- (Rs. Four Crore Seventy-One Lakh Ninety five thousand Forty rupees and eighty-eight paise only) as on 31.08.2023	₹ 93,33,000/- ₹ 93,33,000/- ₹ 93,33,000/- ₹ 93,33,000/- ₹ 93,33,000/- ₹ 93,33,000/- ₹ 50,000/-	₹ 93,33,000/- ₹ 93,33,000/- ₹ 93,33,000/- ₹ 93,33,000/- ₹ 93,33,000/- ₹ 50,000/-	₹ 50,000/- ₹ 50,000/- ₹ 50,000/- ₹ 50,000/- ₹ 50,000/- ₹ 50,000/-	Mrs. Kalpana Parbhit Contact No. 9819807371
22	Property No. 1: Commercial Office No. D/0105, 1st Floor, Jai Nagar Railway Station Complex, Node, Near, Navi Mumbai-400 706 owned by the borrower company represented by liquidator. Boundaries of the property - North: By Railway Line; - South: By Railway Line; - East: By Service Road - Highway; - West: By Station Road. PROP. ID NO.: ID1830009056553A (POSSESSION) Property No. 2: Office premises at Gala No. 27, Wing B, Ground Floor, Building No. 5, Sanjay Building, Akshay Mittal Industrial CHS., Andheri, Kurla Road, Mumbai, Survey No. 84, 85, 86P, CTS No. 1632, Village Marol Andheri (East), Mumbai-400059 owned by the Borrower company represented by liquidator. Boundaries of the property - North: By Rahul Mittal Building No. 3; -South: By Industrial Parking Area; -East: By B East Wing; -West: By A Wing. PROP. ID NO.: ID1830009056553B (POSSESSION) Property No. 3: Commercial Building situated on Plot No. 05, Royal Palms Estate, Aarey Milk Colony Road, Village Maroshi, Goregaon (East) Mumbai-400 065 owned by the borrower Company represented by liquidator. Boundaries of the property - North: By Road & Diamond S/E-4; -South: By Road & Diamond S/E-2; -East: By Piccadilly Apartment-6; -West: By Commercial Bldg. PROP. ID NO.: ID1830009056553C (POSSESSION) Property No. 4: Residential Flat No. 4, 1st Floor, Building No. A, Chand Co-operative Housing society Limited, Juhu Church Road, Juhu, Mumbai-400 054 owned by Mr. R. C. Nanda. Boundaries of the property - North: By Juhu Dhuhi Ghat; -South: By Wing A; -East: By Wing B; -West: By Hare Rama Hare Krishna Road. PROP. ID NO.: ID1830009056553D (POSSESSION)	1. M/s. Topsgroup Services & Solutions Limited (erstwhile Taps Security Ltd), Represented by Liquidator Mr. Anshul Gupta Regd. off. are: 5 Royal Palms Estate, Aarey Milk Colony, Goregaon (East), Mumbai 400065. 2. Dr. Diwan Rahul Nandra (Director / Guarantor / Mortgagor) 3. Retd. Major R. C. Nanda (Director / Guarantor / Mortgagor) Both Add. are: 14-S, Magnum Towers, 2nd Cross Lane, Lokhandwala Complex, Andheri (W), Mumbai-400 053, Maharashtra.	₹ 1,68,91,000/- ₹ 1,00,00,000/- ₹ 36,66,28,350/- (Rs. Thirty Six Crore Sixty Six Lacs Twenty Eight Thousand Three Hundred Fifty only) as on 30.01.2021 ₹ 1,00,00,000/- ₹ 50,00,000/- ₹ 1,00,00,000/- ₹ 26,00,000/- ₹ 50,000/-	₹ 1,68,91,000/- ₹ 1,00,00,000/- ₹ 2,43,21,000/- ₹ 24,33,000/- ₹ 1,00,00,000/- ₹ 50,00,000/- ₹ 21,24,36,000/- ₹ 26,00,000/- ₹ 50,000/-	₹ 1,00,00,000/- ₹ 1,00,00,000/- ₹ 1,00,00,000/- ₹ 50,00,000/- ₹ 1,00,00,000/- ₹ 50,00,000/- ₹ 26,00,000/- ₹ 50,000/-	₹ 1,00,00,000/- ₹ 1,00,00,000/- ₹ 1,00,00,000/- ₹ 50,00,000/- ₹ 1,00,00,000/- ₹ 50,00,000/- ₹ 26,00,000/- ₹ 50,000/-	Mr. Santosh Kumar Srivastava, Contact No. 7076297530

Bidders are advised to visit the website (www.mstcecommerce.com) of our e-auction service provider MSTC Ltd. to participate in online bid. For Technical Assistance please call MSTC HELPDESK No. 033-22901004 or other helpline No(s), available in service providers help desk. For registration visit with MSTC Ltd., Please contact ibaplog@mstcecommerce.com and for EMD status please contact ibaplog@mstcecommerce.com. For Property details and photograph of the property and auction terms and conditions please visit <https://ibapi.in> and for clarifications related to this portal, Please contact Help Line No. 18001025026 and 011-41106131. Bidders are advised to use Property ID number mentioned above while searching for the property in the website with <https://ibapi.in> and www.mstcecommerce.com

Date: 03.09.2023
 Place: Mumbai
 Sd/-
 Authorised Officer, Indian Bank

Madhya Bharat Agro Products Limited

Regd. Off.: 5-O-21, Basement, R.C. Vyas Colony, Bhiwara, 311001, Rajasthan
 CIN: L24121RJ1997PLC029126,
 Website- www.mbapl.com, Email- secretarial@mbapl.com
 Ph: 01482-237104, Fax: 01482-239638

NOTICE OF 26th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND RECORD DATE

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting ("AGM") of Madhya Bharat Agro Products Limited will be held on Tuesday, the 26th September 2023 at 11:00 a.m. (IST) through video conferencing ("VC") / other Audio Video Means ("OAVM") without presence of physical quorum to transact the business as set in the Notice of AGM.

In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of the 26th AGM and the Annual Report for the financial year 2022-23, have been sent to all members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants (DPS). These documents are also available on the website of the Company at www.mbapl.com and on the website of National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com. The dispatch of Notice of the AGM through emails has been completed on 02nd September, 2023.

Pursuant to regulation 42 of SEBI (Listing obligation and disclosure requirement), 2015 the Company has fixed the 19th September 2023 as the Record date/cut-off date for the purpose of determining members eligible for e-voting in the ensuing AGM and to receive dividend on equity shares, if declared.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system provided by National Securities Depository Limited (NSDL) ("remote e-voting"). The facility of voting will also be made available during the AGM and those members who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM. A Person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., 19th September, 2023, will only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting.

The e-voting period commences on Saturday, September 23, 2023 (9.00 a.m. IST) and ends on Monday, September 25, 2023 (5.00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.

Members are provided with a facility to attend the AGM through electronic platform provided by National Securities Depository Limited. Members may access the platform to attend the AGM through VC at www.evoting.nsdl.com by using the remote e-voting credentials. The link for the AGM will be available in the member's login where the "Event" and the "Name of the company" can be selected. The Members who cast their votes by remote e-voting prior to the date of AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Detailed procedure of remote e-voting / e-voting and attending the AGM through VC / OAVM has been provided in the notice of AGM. Any person who becomes shareholder of the company after sending the notice of the AGM, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com. However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote.

The Board of Directors has appointed Mr. Sourabh Bapna of M/s Sourabh Bapna & Associates, Practing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting E-voting process in a fair and transparent manner.

In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Question (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the above website of the www.evoting.nsdl.com. For any grievance/ queries relating to e-voting, members are requested to contact Ms. Pallavi Sukhwai, Company Secretary, Madhya Bharat Agro Products Limited at Registered Office: 5-O-21, Basement, R.C. Vyas Colony, Bhiwara -311001, Email: secretarial@mbapl.com, Tel:01482-237104

By Order of the Board of Directors
 For Madhya Bharat Agro Products Limited
 (Pallavi Sukhwai)
 Company Secretary

Place: Bhiwara
 Date: 02/09/2023

Best Agrolife Limited

Think Big, Think Best

BEST AGROLIFE LIMITED

CIN:L74110DL1992PLC116773
 Regd. & Corporate Office: B-4, Bhagwan Dass Nagar, East Punjab Bagh, New Delhi-110026
 Ph: 011-45803300 | Email: info@bestagrolife.com | Website: www.bestagrolife.com

INFORMATION REGARDING 32ND ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the General Circulars 2/2022 and 19/2021, other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated Jan 5, 2023 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of BEST AGROLIFE LIMITED will be held on Wednesday, September 27, 2023 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses set forth in the Notice of AGM. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of AGM and the Financial Statements for the Financial Year 2022-23

